COVID-19 के दौरान किराएदारों के लिए सूचना और संसाधन



बेदख़लियों पर अस्थायी निलंबन 24 जुलाई 2020 को समाप्त होगा

यदि आपकी आमदनी समाप्त हो गयी है, किराए में संभावित कमी के बारे में अपनी PHA से तुरंत बात करें











किराए का भुगतान न करने पर बेदख़ली को रोकें

क्या मुझे 24 जुलाई 2020 के बाद किराए का भुगतान न करने के लिए बेदख़ली का नोटिस मिल सकता है?

हाँ। जब तक कि राज्य या स्थानीय कानून के तहत किसी बेदख़ली पर लंबा स्थगन प्रभावी नहीं होता है, तब तक 25 जुलाई, 2020 से शुरू होते हुए यदि आपने अपना किराए का भुगतान नहीं किया है या वापसी भुगतान का समझौता नहीं किया है तो आपकी PHA या मकान मालिक आपको बेदख़ली का नोटिस दे सकते हैं। CARES अधिनियम के तहत संघीय कानून के अनुसार स्थगन के अंत में प्रदान किया गया बेदख़ली का नोटिस किराएदार को संपत्ति खाली करने के लिए कम से कम 30 दिन का समय देता है, लेकिन राज्य या स्थानीय कानून के तहत एक लंबी नोटिस अविध की ज़रूरत हो सकती है। यदि आपको बेदख़ली नोटिस मिलता है, तो आपको बेदख़ली कार्यवाही के लिए स्थानीय प्रक्रिया का पालन करना होगा। यदि आपको लगता है कि आपको गलत तरीके से निकाला जा रहा है, तो अपने स्थानीय कानूनी सहायता संगठन या सामाजिक सेवा एजेंसियों से संपर्क करें। यदि आप एक वाउचर भागीदार हैं, तो आप अपनी स्थानीय PHA से भी संपर्क कर सकते हैं। यदि आप एक सार्वजनिक आवास भागीदार हैं, तो आपके पास आपकी लीज़ में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार शिकायत दर्ज करने का अधिकार है।

- यदि मेरे ऊपर किराया बाकी है तो मैं बेदख़ली से बचने के लिए क्या कर सकता/सकती हूं? किराया पहले से बकाया था और भुगतान नहीं किए जाने पर, जमा हो गया है। यदि आप पर भुगतान न किया गया किराया बकाया है, तो नीचे दिए गए संभावित विकल्पों के बारे में अपनी PHA से तुरंत बात करें:
 - (1) यदि आपकी **आय में कमी आई है या परिस्थितियों में बदलाव आया है**, जिसके कारण आपके किराए का समय पर भुगतान करना मुश्किल हो गया है, तो अपनी PHA से आपकी आय को फिर से प्रमाणित करने के लिए कहें।
 - सार्वजिनक आवास भागीदारों और वाउचर भागीदारों, दोनों के लिए, PHA आपकी वर्तमान आय की समीक्षा करेगी और परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए आपके किराए को समायोजित करेगी।
 - सुझाव! यदि आय में परिवर्तन की तुरंत रिपोर्ट नहीं की गई थी, तो PHA को पिछली तारीख से किराए में समायोजन पर उनकी नीति के बारे में पूछें (कुछ उनकी अनुमित दे सकती हैं, कुछ नहीं दे सकती हैं)।
 - ✓ आप РНА से यह भी पूछ सकते हैं कि क्या आप न्यूनतम किराया देने में कठिनाई में छूट के पात्र हैं। सभी РНА को न्यूनतम किराए में कठिनाई की छूट प्रदान करनी होती है। कठिनाई की छूट के लिए РНА की स्थानीय नीतियों की

जानकारी के लिए आप РНА की प्रवेश और निरंतरता कब्ज़ा नीति (АСОР) या प्रशासनिक योजना की समीक्षा कर सकते हैं, या आप सीधे РНА से संपर्क कर सकते हैं।

- (2) सभी <u>सार्वजनिक आवास भागीदारों</u> और <u>वाउचर भागीदारों</u> के पास 24 जुलाई, 2020 तक एकमुश्त किराए का भुगतान करने का विकल्प है। आपकी PHA और मकान-मालिक अप्रैल, मई, जून और जुलाई 2020 के महीनों में किराए के लिए देरी शुल्क या ब्याज नहीं ले सकते हैं।
- (3) यदि आप एक मुश्त राशि में पिछले किराए का भुगतान नहीं कर सकते हैं, तो अपनी PHA या मकान-मालिक (यदि आप वाउचर भागीदार हैं) से पूछें कि क्या आप किसी भी बकाया किराए के लिए **वापसी भुगतान का समझौता** कर सकते हैं। *वापसी भुगतान के समझौतों के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे देखें।*
 - सुझाव! \$1,200+ संघीय आर्थिक प्रभाव भुगतान (प्रोत्साहन भुगतान) को आपकी आय की गणना में शामिल नहीं किया गया था। इसे बकाया किराए में मदद करने के लिए एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लगभग सभी निवासी जो अमरीकी नागरिक हैं, इस भुगतान के लिए पात्र हैं। यदि आपको प्रोत्साहन भुगतान नहीं मिला है, तो कृपया अपने भुगतान की स्थिति की जांच करने के लिए इस वेबपेज पर जाएं और एक आसान फॉर्म भेरें: https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment.
 - सुझाव! CARES अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए अस्थायी बेरोजगारी लाभों में प्रति सप्ताह अतिरिक्त \$600 को आपकी आय की गणना में शामिल नहीं किया गया था। यदि आपको यह अतिरिक्त लाभ मिला है, तो इसे बकाया किराए में मदद करने के लिए एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आपने अपनी नौकरी खो दी है और आपने अभी तक बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदन नहीं किया है, तो आप इस वेबसाइट पर बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदन करने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं: www.usa.gov/unemployment;
 - www.careeronestop.org/LocalHelp/UnemploymentBenefits. ध्यान दें: CARES अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए प्रति सप्ताह अतिरिक्त \$600 अस्थायी बेरोजगारी लाभ 31 जुलाई 2020 को समाप्त हो रहे हैं और अब आवेदन करने से यह अतिरिक्त भुगतान लाभ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन आप अभी भी नियमित बेरोजगारी बीमा के लिए पात्र हो सकते हैं।
- (4) आपकी PHA को किराए, उपयोगिताओं और अन्य बुनियादी जरूरतों में मदद के लिए स्थानीय संसाधनों के बारे में जानकारी हो सकती है। आप किसी भी फोन से 211 डायल कर सकते हैं या आपातकालीन वित्तीय सहायता की जानकारी के लिए 211.org पर जा सकते हैं। कृपया संभावित संसाधनों की सूची के लिए इस दस्तावेज़ के अंत में सेवाएँ और संसाधन अनुभाग भी देखें।
- वापसी भुगतानसमझौता क्या होता है और बेदख़ली से बचने के लिए शर्तें क्या होंगी?

वापसी भुगतान समझौता आपके और PHA (पब्लिक हाउसिंग भागीदारों के लिए) या आपके मकान मालिक (वाउचर भागीदारों के लिए) के बीच एक लिखित और हस्ताक्षरित अनुबंध होता है, जो आप पर बकाया किराए की राशि निश्चित करता है और इस बात पर एक अनुबंध करता है कि आप उस धनराशि में से हर महीने कितनी धनराशि का और कितने महीनों के लिए भुगतान करेंगे (जैसे कि आप पर \$500 बकाया है और आप सहमत होते हैं कि आप अपने नियमित किराए के अलावा, अगले 10 महीनों के लिए, हर महीने, \$50 का अतिरिक्त भुगतान करेंगे)। वापसी भुगतान के समझौते में प्रवेश करना PHA या मकान मालिक के विवेक पर होगा। वापसी भुगतान समझौते के देर से किए गए और छूट गए भुगतानों के परिणामस्वरूप किराएदारी और/या सहायता को समाप्त किया जा सकता है। सार्वजनिक आवास भागीदारों के लिए, वापसी भुगतान समझौते की शर्तों को PHA की प्रवेश और निरंतर कब्ज़ा नीति (ACOP) और लिखित वापसी भुगतान समझौते में रेखांकित जाएगा। <u>वाउचर भागीदारों</u> को वापसी भुगतान समझौते की शर्तें निर्धारित करने के लिए अपने मकान मालिक के साथ सीधे बातचीत करनी होगी।



COVID-19 से संबंधित जानकारी और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं

> यदि COVID-19 के लिए मेरे परीक्षण का नतीजा पॉज़िटिव आता है तो मुझे क्या करना चाहिए?

आपकी PHA आपको कह सकती है कि यदि आपके परीक्षण का नतीजा पॉज़िटिव आता है या आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसके परीक्षण का नतीजा पॉज़िटिव आता है,तो अन्य किराएदारों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आप खुद रिपोर्ट करें। आपके लिए अपनी PHA या मकान मालिक को निदान के बारे में बताना ज़रूरी नहीं है। हालाँकि, इस जानकारी को साझा करने से उन कर्मचारियों और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है जो आपके संपर्क में आए हो सकते हैं।

क्या मुझे यह जानने का अधिकार है कि क्या अन्य किराएदारों का COVID-19 के लिए परीक्षण का नतीजा पॉजिटिव आया है?

आपकी PHA को आपके साथ मौजूदा COVID-19 निदान साझा करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, कुछ PHA अपनी इमारत में किसी व्यक्ति के COVID -19 के परीक्षण का पॉज़िटिव परिणाम आने पर किराएदारों को सूचित कर सकती हैं।

यदि मेरे मन में संपत्ति प्रबंधन और रखरखाव के जुड़े सवाल या चिंताएं हों तो?

आपको संपत्ति प्रबंधन और रखरखाव अनुरोधों से जुड़ी चिंताओं के साथ अपनी PHA या मकान मालिक से संपर्क करना जारी रखना चाहिए। गैर-आपातकालीन चिंताओं या अनुरोधों के जवाब सीमित या विलंबित हो सकते हैं। कुछ PHA ने COVID-19 के प्रसार को कम करने के लिए अपने कार्यालय बंद कर दिए हैं, लेकिन वे टेलीफोन, ईमेल या उनके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ कार्यालयों ने अपनी कर्मचारी संख्या घटा दी हो और/अथवा वे केवल आपातकालीन स्थितियों का ही जवाब दे रहे हों। पता करें कि आपकी इमारत में या संपत्ति प्रबंधन कार्यालय के आसपास अधिक जानकारी के साथ पर्चे या संदेश लगाए गए हैं।

अगर मेरी इमारत में संक्रमित व्यक्ति हैं (हैं), तो क्या PHA को मेरे युनिट को पेशेवर रूप से साफ़ करने की ज़रूरत है?

नहीं, PHA आम क्षेत्रों में सफाई करने के लिए जिम्मेदार है और अपनी युनिट के लिए आप स्वंय जिम्मेदार हैं।

इस दौरान मेरी रेजिडेंट काउंसिल किराएदारों की सहायता कैसे कर सकती है?

रेजिडेंट काउंसिलल निवासियों को प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करने के लिए स्थानीय एजेंसियों के साथ साझेदारी करके, सर्वेक्षण आयोजित करके और COVID-19 से संबंधित संचालनों और PHA के पास उठाए जाने वाले मुद्दों पर निवासियों की राय एकत्रित करके, और स्थानीय संसाधनों की सूची तैयार करके COVID-19 संबंधित प्रयासों का समर्थन कर सकती हैं। रेजिडेंट काउंसिल महत्वपूर्ण सूचनाएं भेजने के लिए वर्चुअल मीटिंग और प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक (जैसे Zoom) और एक साथ बहुत से लोगों को संदेश भेजने की सेवा (जैसे कि Twilio, Simpletexting, या eztexting) की सदस्यता खरीदने के लिए किराएदार भागीदारी फंड का उपयोग कर सकती हैं।

यदि मैं COVID -19 के कारण सार्वजिनक आवास के लिए सामुदायिक सेवा और आत्मिन भिरता आवश्यकता (CSSR) को पूरा करने में असमर्थ हूं तो क्या होगा?

CSSR केवल <u>सार्वजनिक आवास भागीदारों</u> पर लागू होता है, <u>वाउचर भागीदारों</u> पर नहीं। हो सकता है आपकी PHA ने सामुदायिक सेवा आवश्यकता के COVID-19 छूट को अपनाया हो। पता करें क्या आपकी PHA ने छूट को अपनाया है और सामुदायिक सेवा और आत्मनिर्भरता गतिविधियों और अनुपालन करने पर मार्गदर्शन प्राप्त करने में सहायता के लिए अपनी PHA के रेजिडेंट सर्विस स्टाफ या सर्विस कोऑर्डिनेटरों से संपर्क करें।

क्या मैं निरीक्षकों से मेरे यूनिट में प्रवेश करने से पहले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) पहनने की मांग कर सकता/सकती हुँ?

हां, अगर आप PPE, जैसे कि चेहरा ढकना या मास्क लगाना, के बिना वाले PHA स्टाफ द्वारा आपके घर में प्रवेश करने में असहज महसूस करते हैं, तो कृपया PHA स्टाफ से कहें कि उन्हें CDC मार्गदर्शन और राज्य या स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों की सलाह का पालन करना चाहिए।



घरेलू और यौन हिंसा से सुरक्षा

VAWA क्या है? और क्या मैं VAWA सुरक्षाओं के अंतर्गत आता/आती हूँ?

- वॉयलेंस अगेंस्ट वीमन एक्ट (VAWA) घरेलू हिंसा, डेटिंग हिंसा, यौन उत्पीड़न और पीछा करने (जिन्हें "VAWA अपराध" कहा जाता है) के पीडितों के लिए सुरक्षाएं प्रदान करता है।
- स्रक्षाएं लिंग भेदभाव के बिना उपलब्ध है।

क्या COVID-19 के लिए क्वारंटाइन के कारण मेरी VAWA सुरक्षाओं में बदलाव आया है?

- नहीं, यदि आप VAWA अपराध के शिकार हैं, तो COVID-19 के दौरान आपकी सुरक्षाएं वही रहेंगी। आपको सहायता से मना नहीं किया जा सकता है या घरेलू हिंसा, डेटिंग हिंसा, यौन उत्पीड़न, या पीछा करने के आधार पर या इसके सीधे परिणामस्वरूप आपकी सहायता समाप्त नहीं की जा सकती है।
- इसके अतिरिक्त, VAWA अपराधों का शिकार होने को आपकी लीज़ का गंभीर या बार-बार उल्लंघन या आपकी सहायता, किराएदारी, या कब्ज़े को समाप्त करने का एक सहीकारण नहीं माना जा सकता है। हालांकि, जब अन्य किराएदारों के लिए वास्तविक और निकट भविष्य में खतरा मौजूद हो तो PHA या मालिक मामला-दर-मामला के आधार पर घटनाओं का मूल्यांकन करेंगे।

अगर मुझे covid-19 के दौरान दुर्व्यवहार से बचने के लिए जगह बदलने की ज़रूरत हो?

आप अभी भी अपने РНА से आपातकालीन स्थानांतरण का अनुरोध कर सकते हैं। प्रत्येक РНА को एक आपातकालीन ट्रांस्फर योजना की आवश्यकता होती है, जिसमें दिया गया हो कि कौन योग्य हो, किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत है (यदि कोई हो), РНА गोपनीयता की सुरक्षा कैसे करेगी, और РНА आपातकालीन स्थानांतरण अनुरोधों पर प्रक्रिया कैसे करेगी।

> आपातकालीन स्थानांतरण अनुरोध के लिए मुझे किस तरह के दस्तावेज़ों की ज़रूरत है?

- РНА के लिए दस्तावेज़ों की मांग करना ज़रूरी नहीं है और वह एक मौखिक बयान स्वीकार कर सकती है। दस्तावेज़ो आवश्यकताओं को РНА की आपातकालीन स्थानातंरण योजना में शामिल किया जाएगा।
- यदि दस्तावेज़ो मांगे जाते हैं, तो आप अपनी पसंद के निम्नलिखित विकल्प प्रदान कर सकते हैं: या तो (Form HUD-5382) का उपयोग करते हुए स्व-प्रमाणित करें या किसी ऐसे व्यक्ति से दस्तावेज उपलब्ध कराएं, जिसने दुर्व्यवहार में आपकी मदद की है (जो पीड़ित कर्मचारी प्रदाता का कर्मचारी, एजेंट या स्वयंसेवक, कोई वकील, या चिकित्सा पेशेवर या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर हो सकता है) या एक प्रशासनिक रिकॉर्ड (पुलिस रिपोर्ट और प्रतिबंधों के आदेश सिहत)।

यदि मुझे COVID-19 के दौरान दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति को अपनी युनिट से बाहर निकालने की आवश्यकता तो क्या होगा?

 आपके vawa अधिकार अभी भी COVID-19 के दौरान आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर घर का कोई सदस्य सीधे vawa अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि में संलग्न है, तो आपके पास उपलब्ध विकल्पों पर चर्चा करने के लिए अपनी PHA या मकान मालिक से संपर्क करें।

उन मामलों में РНА के साथ बातचीत करने का सबसे सुरिक्षत और सबसे गोपनीय तरीका क्या है, जहां अपराधी घर का सदस्य हो?

 कृपया РНА को आपके साथ बातचीत करने का सबसे सुरिक्षत तरीका बताएं। РНА के साथ साझा की गई सारी जानकारी को कड़ी गोपनीयता के साथ रखा जाना चाहिए।

क्या इसका मतलब यह है कि किसी VAWA पीड़ित को निकाला नहीं जा सकता है या उसकी सहायता समाप्त नहीं की जा सकती है?

 नहीं, VAWA किसी PHA या मालिक को उन उल्लंघनों के लिए निकालने या सहायता समाप्त करने से मना नहीं करता है जो VAWA अपराध के दायरे में शामिलल नहीं किए गए हैं। PHA या मालिक को आपके साथ वही मानक रखने चाहिए जो अन्य किराएदारों के साथ रखे जाते हैं। PHA/मालिक अभी भी आपको लीज़ की गंभीर या बार-बार की जाने वाली उन उल्लंघनों के लिए निकाल सकता है जो VAWA के दायरे के बाहर हैं अथवा यदि PHA/मालिक यह प्रदर्शित कर सकता है कि अन्य किराएदारों या कर्मचारियों के लिए वास्तविक और निकट भविष्य में खतरा है।

क्या РНА के लिए मुझे मेरे VAWA आवास सुरक्षाओं के बारे में बताना आवश्यक है?

 हां, आपकी PHA के द्वारा आपके VAWA सुरक्षा के बारे में उसी समय अवश्य सूचित किया जाना चाहिए जब आपको प्रवेश या सहायता से मना किया जाता है, जब आपको सहायता प्रदान की जाती है, और जब आपको सहायता समाप्ति की सूचना मिलती है।

अगर मैं परेशान हूँ, संकट में हूँ, या मुझे तुरंत किसी से बात करने की ज़रूरत है तो मुझे क्या करना चाहिए?

- असुरक्षित दुर्व्यवहार वाले रिश्ते के संबंध में मदद के लिए, आप राष्ट्रीय घरेलू हिंसा हॉटलाइन 1-800-799-7233 पर कॉल कर सकते हैं, या सुनने की कम क्षमता रखने वाले व्यक्तियों के लिए, 1-800-787-3224 (TTY) या 22522 पर LOVEIS लिख कर संदेश भेजें।
- यौन हमले के संबंध में मदद के लिए, आप राष्ट्रीय यौन हमला हॉटलाइन (RAINN) से 1-800-656-4673 पर संपर्क कर सकते हैं।

अतिरिक्त संसाधनः

- पीछा किए जाने के संबंध में मदद के लिए, नेशनल सेंटर फॉर विक्टिम्स ऑफ़ क्राइम स्टॉकिंग रिसोर्स सेंटर की वेबसाइट https://www.victimsofcrime.org/our-programs/stalking-resource-center पर जाएँ।
- प्रत्येक राज्य के लिए स्थानीय संघों की डायरेक्टरी खोजने के लिए, नेशनल कोलिशन अगेंस्ट डोमेस्टिक वॉयलेंस वेबसाइट https://ncadv.org/state-coalitions पर जाएं।



सेवाएँ और संसाधन

- आपदा संकट हेल्पलाइन 1 (800) 985-5990 एक राष्ट्रीय हॉटलाइन है जो ऐसे लोगों के लिए तत्काल संकट परामर्श प्रदान करने के लिए समर्पित है जो किसी भी प्राकृतिक या मनुष्य द्वारा पैदा की गई आपदा से संबंधित भावनात्मक संकट का सामना कर रहे हैं।
- राष्ट्रीय घरेलू हिंसा हॉटलाइन https://www.thehotline.org या 1 (800) 799–7233 या TTY 1 (800) 787–3224 घरेलू हिंसा का सामना कर रहे ,जानकारी की तलाश कर रहे, या अपने रिश्ते के अस्वास्थ्यकर पहलुओं पर सवाल पूछने वाले व्यक्ति के लिए एक गोपनीय हॉटलाइनहै। यदि आप फोन पर सुरक्षित रूप से बात नहीं कर सकते हैं, तो 1 (866) 331-9474 पर LOVEIS लिख कर संदेश भेजें या ऑनलाइन चैट शुरू करने के लिए वेबसाइट पर जाएं।
- 211 किसी भी फोन से 211 डायल करें या 211.org पर जाएं और ज़िप कोड द्वारा खोजें यह एक हॉटलाइन है जो आपको आपातकालीन सहायता और आपके समुदाय में अन्य सहायक सेवाओं से जोड़ सकती है। सभी कॉल गोपनीय हैं,

गुमनाम रूप से की जा सकती हैं, और कॉल करने वाले व्यक्ति 180 भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

- बेरोजगारी बीमा www.usa.gov/unemployment पता करें कि क्या आप बेरोजगारी लाभ के लिए पात्र हैं। नया संघीय कानून स्व-रोजगार और गैर पारंपरिक श्रमिकों के लिए बेरोजगारी लाभ प्रदान करता है, साप्ताहिक लाभों के लिए अतिरिक्त \$600 देता है, और राज्य द्वारा वर्तमान में प्रदान किए जाने वाले सप्ताहों की संख्या में अतिरिक्त 13 सप्ताह के लाभ जोड़ता है। इसके अलावा, राज्यों को COVID-19 से संबंधित बेरोजगारी लाभ प्रदान करने की अनुमित है, जैसे कि जब कोई व्यक्ति संपर्क में आने अथवा संक्रमित होने के जोखिम के कारण या परिवार के किसी सदस्य की देखभाल करने के लिए रोजगार छोड़ता है; कोई नियोक्ता अस्थायी रूप से COVID-19 के कारण काम बंद कर देता है, जिसका अर्थ है कि कर्मचारी काम पर नहीं जा सकते हैं; या कोई व्यक्ति क्वारंटाइन में है लेकिन क्वारंटाइन समाप्त होने के बाद वह काम पर लौटने की उम्मीद करता है।
- > **कैरियर वन स्टॉप बेरोजगारी लाभ खोजकर्ता** <u>www.careeronestop.org/LocalHelp/UnemploymentBenefits</u> पता करें कि आपके राज्य में बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदन कैसे करना है।
- आर्थिक प्रभाव भुगतान https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment पता करें कि क्या आप \$1,200 से लेकर \$2,400 तक के आर्थिक प्रभाव भुगतान के लिए योग्य हैं (योग्य आश्रितों वाले लोगों के लिए इससे भी अधिक)।
- **मुफ़्त में टैक्स दस्तावेज़ तैयार करना** https://irs.treasury.gov/freetaxprep अपने टैक्स फाइल करने में मुफ्त सहायता प्राप्त करें जो कि प्रशिक्षित स्वयं-सेवकों द्वारा प्रदान की जाती है।
- > कम्युनिटी एक्शन एजेंसी https://communityactionpartnership.com/find-a-cap/ अपनी स्थानीय कम्युनिटी एक्शन एजेंसी से संपर्क करके पता लगाएं कि वे कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि किराए या उपयोगिताओं के लिए आपातकालीन भुगतान में सहायता।
- बिलों में सहायता www.usa.gov/help-with-bills घर के बिजली के बिलों और अन्य खर्चों के भुगतान में मदद के लिए सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जानें।
- > जरूरतमंद परिवारों के लिए अस्थायी सहायता (TANF) https://www.benefits.gov/benefit/613
- चाइल्डकेयर https://www.childcare.gov/covid-19 आपके राज्य में बाल देखभाल केंद्र खोजने में सहायता सिहत, बाल देखभाल संसाधनों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।
- COVID-19 के कारण तत्काल उपलब्ध नौकिरयां https://needajobnow.usnlx.com एक वेब साइट है जो सत्यापित नियोक्ताओं से इस समय उपलब्ध नौकिरयों की सूची देती है।